



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 आश्विन, 1940 (श०)

संख्या- 921 राँची, शुक्रवार

28 सितम्बर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

25 सितम्बर, 2018

संख्या: 14/ भा०स०प०-13-01/2018 का० 7233

प्रेषक,

चन्द्र भूषण प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त,
सभी अनुमंडल पदाधिकारी,
सभी अंचल अधिकारी/ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 25/09/2018

विषय :- आव्रजित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक-2216, दिनांक 12 जुलाई, 2005, पत्र सं०-3557, दिनांक 18 अक्टूबर, 2005 एवं पत्र सं०-4464, दिनांक 19 जून, 2018 के क्रम में सूचित करना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं०-BC-16014/1/82-SC&BCD-1, दिनांक 6 अगस्त, 1984 (प्रति संलग्न) के द्वारा आव्रजित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने संबंधी संशोधित प्रपत्र एवं प्रावधान संसूचित है । साथ ही गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं०- BC-16014/1/82-SC&BCD-1, दिनांक 22 फरवरी, 1985 (प्रतिसंलग्न) के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने, आजीविका प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से आकर बस जाते हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि उन्हें उनके निवास स्थान के राज्य में आरक्षण की सुविधा उपलब्ध रहेगी । ऐसे लोग आव्रजित श्रेणी में आते हैं और उन्हें अनुमान्य आरक्षण की सुविधा उनके मूल राज्य में ही उपलब्ध होगी ।

आव्रजित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को झारसेवा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने तथा संबंधित प्राधिकारों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र निर्गत करने/ आवेदन अस्वीकृत करने के संबंध में एन०आई०सी० द्वारा साफ्टवेयर विकसित किया गया है (Service Definition Document की प्रति संलग्न) । उक्त के संबंध में दिनांक 10 जुलाई, 2018 को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया गया है ।

अनुरोध है कि आव्रजित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय ।

अनु०- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

चन्द्र भूषण प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।
